

प्रेस विज्ञप्ति

15.10.2025- अखिल भारतीय



भारतीय जीवन बीमा निगम की नई जन सुरक्षा (योजना 880) और बीमा लक्ष्मी (योजना 881) का शुभारंभ

भारतीय जीवन बीमा निगम के सी.ई. ओ. एवं एम.डी., श्री आर. दुरैस्वामि ने दो नई योजनाएँ, एलआईसी की जन सुरक्षा (यूआईएन: 512N388V01) और एलआईसी की बीमा लक्ष्मी (यूआईएन: 512N389V01) शुरू कीं। ये नई अगली पिढी जी.एस.टी.व्यवस्था में एलआईसी द्वारा पेश किए गए पहले दो उत्पाद हैं।

वर्तमान परिवेश में, जब ब्याज दरें अत्यधिक अस्थिर हैं, ये दोनों योजनाएँ पॉलिसी अवधि के दौरान गारंटीड अंडीशन्स प्रदान करती हैं। दोनों योजनाओं के तहत तीन वर्षों के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद ऑटो कवर सुविधा उपलब्ध है।

एलआईसी की जन सुरक्षा - योजना (880)

एलआईसी की जन सुरक्षा एक जीवन सूक्ष्म बीमा योजना है। इस योजना का उद्देश्य कम आय वर्ग के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना है। इसमें ऑटो कवर सुविधा और गारंटीड अंडीशन्स शामिल हैं। ये गारंटीड अंडीशन्स, पॉलिसी अवधि के दौरान प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में वार्षिक प्रीमियम के 4% की दर से अर्जित होते हैं। यह योजना पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसीधारक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है और परिपक्वता के समय जीवित पॉलिसीधारक को एकमुश्त राशि प्रदान करती है। यह योजना बिना किसी चिकित्सीय जाँच के केवल सामान्य स्वस्थ जीवन के लिए उपलब्ध है।

- प्रवेश के समय न्यूनतम और अधिकतम आयु की मर्यादा 18 वर्ष (पूर्ण) और 55 वर्ष है।
- न्यूनतम मूल बीमित राशि ₹1,00,000/- है, जबकि प्रति व्यक्ति अधिकतम मूल बीमित राशि ₹ 2,00,000/- है (मूल बीमित राशि का गुणज ₹5,000/- होगा)।
- पॉलिसी अवधि 12 से 20 वर्ष है और प्रीमियम भुगतान अवधि की गणना पॉलिसी अवधि में से 5 वर्ष घटाकर की जाएगी।

यह योजना एक नॉन- पार, नॉन- लिंकड व्यक्तिगत बचत बीमा योजना है।

एलआईसी की बीमा लक्ष्मी - योजना (881)

एलआईसी की बीमा लक्ष्मी विशेष रूप से महिलाओं के लिए परिकल्पित की गई एक बीमा योजना है जो जीवन बीमा, बीमित व्यक्ति की पसंद के अनुसार हर 2 वर्ष अथवा 4 वर्ष बाद या प्रीमियम भुगतान बंद होने के बाद आवधिक निश्चित धन-वापसी, सीमित बीमारियों को कवर और आकर्षक गारंटीकृत परिपक्वता लाभ प्रदान करती है।

चालू पॉलिसियों के लिए हर साल कुल सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम के 7% की दर से गारंटीड अंडीशन्स अर्जित होती है और चुकता पॉलिसियों के लिए, गारंटीड अंडीशन्स लागू होने पर अनुपातिक दर से अर्जित होगी।

प्रवेश के समय न्यूनतम आयु 18 वर्ष (अंतिम जन्मदिन) है। प्रवेश के समय अधिकतम आयु 50 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) है।

पॉलिसी अवधि 25 वर्ष है। प्रीमियम भुगतान अवधि 7 वर्ष से 15 वर्ष है।

न्यूनतम मूल बीमा राशि ₹2,00,000/- है। प्रति व्यक्ति अधिकतम मूल बीमित राशि की कोई सीमा नहीं है (अंडरराइटिंग पॉलिसी के अधीन)। (मूल बीमित राशि के गुणज ₹10,000 में होगा)

पूर्ण तीन वर्षों के प्रीमियम के भुगतान के बाद ऑटो कवर सुविधा उपलब्ध है। अन्य राइडर्स के अलावा, अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर महिला गंभीर बीमारी राइडर भी उपलब्ध है। यह योजना एक नॉन-पार, नॉन-लिंकड बीमा योजना है।

विवरण के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर बिक्री विवरणिका देखें।

दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 को मुंबई में

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें: कार्यकारी निदेशक (नि.सं.) भारतीय जीवन बीमा निगम, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई।
ईमेल आईडी: ed_cc@licindia.com हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर जाएँ।

हमारा मानना है कि इस विज्ञप्ति में शामिल समाचार आपके पाठकों के लिए मूल्यवान हैं। हम आपको इसे जल्द से जल्द प्रकाशित करने के लिए धन्यवाद देते हैं, साथ ही हम यह भी स्वीकार करते हैं कि ऐसा करने का निर्णय पूरी तरह से आपका है।